ममैवनपानंदाषमदु·ख्लब्राह्मिपनिमस्वरावध्यवहान·ख्वानधात्रसानि हदियाउगालगनसामहा ख्ललाकादला॥

...नपर्य्यन्तां·आदशात्पृथिवी मिमां॥नखाद्स्वापिथामांसं·गुल्पमनद्दिदर्वूं श्रा॥पृगुलिसमुद्रनश्वकापृथिवीपद्मनंपु

...नविथाह्लावख्वननाशानदंनिनामांसीक्रयाख्लवृगुल्पख्लक्हलं॥२३॥ ॥भूमिनापःक्रिया मूर्खाः सर्प्पानाउकुल

...निपमवापवानत·सयप्राहहनानिषद्॥मित्रंख·स्त्री·मूर्ख·वि·नाउकुल·थ्वगषूनाहिथंउपवानयाङ्यान·नाका

...ाहभावङ्वक्हनाा॥२४॥ ॥गुह्यमांसंस्त्रियावृद्धा·वालार्कस्तनूहंदधि॥प्रगागमैथुनंनिद्रा·सद्यप्राहहनानिषद्

स्त्रषूनिनाउिथिमिसा·कन्यानाभियाहर्य्य·कटिङ्लयानलालश्रयागुलि·गनूहधनिवयान·सूथहं गानयाङ्गान

स्तथङ्कउत्रपकान·थ्वषूनाननङ्वानहंप्राहभावकनं॥२५॥ ॥सद्यो मांसं घृतं सज्ञा·वालास्त्री क्षीरभोजनं॥उष्णोदकं त

नूकाया सयप्राणकनानिषट्गानकस्या गलानयानं नककायाघनेनयान ऊिमषूदहन्ति संलागया ह्नान ·द्वृलाऊनयास्व
न· क्ताकलंषनां गन· मिसायाछ्रायानकायकंवा ह्न· थषूतानन ल्कानहंप्राणकनहृव· मनीनधंधंक्षालं॥२९६॥ अं
गुर्दं पूष्टं· पृष्टादष्टगुणंपयः। पयस्वष्टगुणंमांसं· मांसादष्टगुणंघृतं॥ अंनया केनयादगुणहृव· पानन कू काम
ामधिप्वादिन· थमधिमाकनयाद्गुणहृ· हृद्रूयाकनयादगुण· लायाकनयादगुणहृवघन· थन नलुर
ीनवलताकहृलं॥२९७॥ ॥पंवक्षिप्रंविनश्यन्ति मद्यात्लुब्धश्ययानवः॥ अगिमानीवमामीवगुनहृषीतर
मनूष्पनिधनहृव न्हृठा न्हं नल्कानहंनाशहृव· कूकूधानसा· नङ्खि· थमसूपनद्· लाहा· अगी· अगि
कामयवक्ष गुनूवद्ध षीथनठा कं नना नंभायूवो॥२९८॥ ॥रमाति विप्रिश्चवदेष्य· सनीरि: सत्यः ४५

४५ वादिरि:॥ अलुब्धा घनशील्श्च सफरिर्धार्म्यनमही॥ मादकान· ब्राम्हनदकान· वदनसनीहृवमूीपनिसन· ला
वृपनीसन सत्यवादीपनीसन· दानविप्रशीलस्वलवदकासन· थहसमान· पृथिवीधननपंतनं॥२९९॥ अंसान पा
संसार: सागनस्वदुस्तरं॥ काशीवास: सतां संगो गंगाम्भ: शंभुपूजनं॥ अंसान संतान सत्थथपनासान हृनं· कूकू
धानसा· काशीवासयानं· सत्पूरूषपनिवसे संगयाव· गंगालख महादवपूजायाय· थनपगुलिसान हृनं॥३००
॥ ॥ॐ निदानकेसारसंग्रहरमीयः अनकः समाप्तम्॥ ॥शुभं॥ संत ८२ मार्ग्गशिरकृष्ण १३ थकुन्नुश्री
वाग्यशिनाऊनक्षानसिद्धयकादिनहृनो॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ४५

ASHA ARCHIVES 3650

६२

६२